



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]
No. 688]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 3, 2009/अग्रहायण 12, 1931
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2009/AGRAHAYANA 12, 1931

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2009

सं. 130/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 859(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 20/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण में, सं. सा.का.नि. 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "उर्वरक और उर्वरकों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी कच्चा माल/निवेश" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 341/111/2009-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 20/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, सं. सा.का.नि. 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 97/2008-सीमाशुल्क, तारीख 18 अगस्त, 2008, सं. सा.का.नि. 599(अ), तारीख 18 अगस्त, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2009

No. 130/2009-Customs

G.S.R. 859(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 92(E), dated the 1st March, 2006, namely :—

In the said notification, in the Table, against S. No. 4, for the entry in column (3), the entry, "Fertilizers and all inputs/raw materials for use in the manufacture of fertilizers" shall be substituted.

[F. No. 341/111/2009-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 92(E), dated the 1st March, 2006 and was last amended by Notification No. 97/2008-Customs, dated the 18th August, 2008 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 599(E), dated the 18th August, 2008.